



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 259]
No. 259]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 31, 1982/भाद्र 9, 1904
NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 31, 1982/BHADRA 9, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 1982

सं० 205/82-सीमाशुल्क

सां० कां० निं० 550(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 82/82 सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 1982 को अधिकांत करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है कच्चे लोहे को जब उसका भारत में आयात किया जाए, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण सीमाशुल्क से और द्वितीय उल्लिखित अधिनियम की धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय प्रतिरिक्त शुल्क से छूट देती है।

2. यह अधिसूचना 28 फरवरी, 1983 तक जिसमें यह तारीख की सम्मिलित, प्रवृत्त रहेगी।

[फा० सं० 355/20/82-सी०शु० 1]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 31st August, 1982

NO. 205/82-CUSTOMS

G.S.R. 550(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, No. 82/82-Customs, dated the 1st March, 1982, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts pig iron, when imported into India, from the whole of the duty of customs leviable thereon which is specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) and the additional duty leviable thereon under section 3 of the second mentioned Act.

2. This notification shall be in force upto and inclusive of the 28th February, 1983.

[F. No. 355/20/82-Cus. I]

सं० 206/82-सीमाशुल्क

सां० कां० निं० 551(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त विभाग, 1982 (1982 का 14) की धारा 44 की उप-धारा (4) के साथ

पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि, लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 136-सीमा शुल्क, तारीख 11 मई, 1982 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में,—

(क) क्रम संख्यांक 202 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ख) क्रम संख्यांक 214 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियाँ अंतः स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

“215 सं० 205-सीमाशुल्क, तारीख 31 अगस्त, 1982”

[फा० सं० 355/20/82-सीमा-शुल्क-1]
जैड० बी० नगरकर, प्रवर सचिव

NO. 206/82-CUSTOMS

G.S.R. 551(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 44 of the Finance Act, 1982 (14 of 1982), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 136-Customs, dated the 11th May, 1982, namely :—

In the Schedule to the said notification—

(a) Serial No. 202 and the entries relating thereto shall be omitted;

(b) after Serial No. 214 and the entries relating thereto, the following Serial No. and entries shall be inserted, namely :—

“215. No. 205-Customs, dated the 31st August, 1982”

[F. No. 355/20/82-Cus-I]
Z. B. NAGARKAR, Under Secy.